



सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 69]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 14, 1977, माघ 25, 1898

No 69]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 14, 1977 MAGHA 25, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February 1977

**S.O. 163(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following amendments shall be made in its notification No. 434/DL/77(1), dated 29 January, 1977, namely —

In column 2 of the Table appended to the said notification,—

- (i) against item 'Returning Officer of 1 New Delhi Parliamentary Constituency', for the existing entries numbered 1 & 2, the entries "1. Shri S. C. Poddar, Executive Magistrate, Tis Hazari, Delhi and 2. Shri G. Srivastava, Sub-Divisional Magistrate, Daryaganj";
- (ii) against item 'Returning Officer of 2. South Delhi Parliamentary Constituency', for the existing entry numbered 3, the entry "3 Shri S. L. Dua, Executive Magistrate, Delhi and Under Secretary (Finance) Delhi Administration 5, Alipur Road, Delhi";
- (iii) against item 'Returning Officer of 3 Outer Delhi Parliamentary Constituency', for the existing entries numbered 2 & 3, the entries "2 Shri S. K. Malhotra, Executive Magistrate, Delhi & District Land Reforms Officer and Land Acquisition Collector, Delhi and 3 Shri M. L. Aggarwal, Executive Magistrate, Delhi & Revenue Assistant, New Courts, Delhi";

- (iv) against item 'Returning Officer of 4. East Delhi Parliamentary Constituency', for the existing entries numbered 2 & 3, the entries "2. Shri R. D. Srivastva, Sub-Divisional Magistrate (Civil Lines) New Courts, Delhi and 3 Shri Y. D. Benkata, Executive Magistrate, Delhi & Secretary, State Motor Transport Authority, Rajpur Road, Delhi";
- (v) against item 'Returning Officer of 5 Chandni Chowk Parliamentary Constituency', for the existing entries numbered 3 & 4, the entries "3 Shri S. S. Harit, Executive Magistrate, Delhi & Sub-Regional Employment Officer Arab-ki-sarai, Nizamuddin, New Delhi and 4 Shri K. N. Banati, Executive Magistrate, Tis Hazari, Delhi";
- (vi) against item 'Returning Officer of 6 Delhi Sadar Parliamentary Constituency', for the existing entries numbered 2 & 3, the entries "2 Shri K. L. Chopra, Executive Magistrate, Delhi & Land Acquisition Collector, New Courts, Delhi and 3 Shri S. P. Marwah, Sub-Divisional Magistrate, Kingsway Camp, New Courts, Delhi";
- (vii) against item 'Returning Officer of 7 Karol Bagh (SC) Parliamentary Constituency', for the existing entries numbered 1 & 2, the entries "1 Shri C. D. Sharma, Executive Magistrate Delhi & Deputy Director Social Welfare, 7, Lancers Road, Delhi-7 and 2 Smt. Lalitha Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Original Road, New Courts, Delhi";

shall be substituted, and

- (viii) against item 'Returning Officer of 1 New Delhi Parliamentary Constituency', after the existing entry numbered 3, the entry "4 Shri R. K. Bhatia, Executive Magistrate, Delhi & General Manager, Delhi Tourism Development Corporation, Connaught Place, New Delhi";
- (ix) against item 'Returning Officer of 2 South Delhi Parliamentary Constituency', after existing entry numbered 3, the entry "4 Shri K. N. Bose Executive Magistrate, Delhi and Assistant Development Commissioner, 7 Lancers Road, Delhi-7";
- (x) against item 'Returning Officer of 3 Outer Delhi Parliamentary Constituency', after the existing entry numbered 3, the entry "4. Shri L. D. Gupta, Executive Magistrate, Delhi and Joint Director Education, Old Secretariat, Delhi";
- (xi) against item 'Returning Officer of 4. East Delhi Parliamentary Constituency', after the existing entry numbered 3, the entry "4 Shri S. C. Jain, Executive Magistrate, Delhi and Under Secretary, P.W.D. Delhi Administration Building, I P Estate, New Delhi", and
- (xii) against item 'Returning Officer of 6 Delhi Sadar Parliamentary Constituency', after the existing entry numbered 3, the entry "4. Shri K. N. Joshi, Executive Magistrate, Delhi & Assistant Commissioner Excise, 2. Battery Lane, Delhi";

shall be added.

[No 434/DL/77(1)]

By Order,

P. K. MISRA, Secy.

### भारत निर्वाचन आयोग

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1977

का० आ० 163(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) को धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्वारा

यह निदेश देता है कि तारीख 29 जनवरी, 1977 की इसकी अधिसूचना सं० 434/दिल्ली/77(1) में निम्नलिखित संशोधन किए जायेंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारिणी के स्तम्भ 2 में, —

- (i) मद '1. नई दिल्ली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर' के सामने विद्यमान प्रविष्टि सख्या 1 और 2 के स्थान पर, '1. श्री एम० सी० पोद्दार कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तीस हजारी, दिल्ली तथा 2. श्री जी० श्रीवास्तव, उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, दरियागंज।' प्रविष्टियां;
- (ii) मद '2 दक्षिण दिल्ली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर' के सामने विद्यमान प्रविष्टि सख्या 3 के स्थान पर, '3. श्री एम० एल० दुआ, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दिल्ली तथा अधर सचिव, (वित्त), दिल्ली प्रशासन, 5, अलीपुर रोड, दिल्ली।' प्रविष्टि;
- (iii) मद '3 बाह्य दिल्ली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर' के सामने विद्यमान प्रविष्टि सं० 2 और 3 के स्थान पर, '2 श्री एम० के० मलहोत्रा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दिल्ली तथा जिला भूमि सुधार अधिकारी और भूमि अर्जन कलक्टर, दिल्ली; और 3 श्री एम० एल० अग्रवाल, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दिल्ली तथा राजस्व सहायक, न्यू कोर्टस्, दिल्ली।' प्रविष्टियां,
- (iv) मद '4 पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर' के सामने विद्यमान प्रविष्टि सख्या 2 और 3 के स्थान पर, '2. श्री आर० डी० श्रीवास्तव, उप-खण्ड मजिस्ट्रेट (सिविल लाइन्स) न्यू कोर्टस्, दिल्ली और 3. श्री बाई० डी० बेकट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दिल्ली तथा सचिव, राज्य मोटर परिवहन प्राधिकरण, राजपुर रोड दिल्ली।' प्रविष्टियां;
- (v) मद '5 चांदनी चौक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर' के सामने विद्यमान प्रविष्टि सख्या 3 और 4 के स्थान पर, '3. श्री एम० एस० हरित, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दिल्ली तथा उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, अरब की सराय, निजामुद्दीन, नई दिल्ली, और 4. श्री के० एन० बनाती कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तीस हजारी दिल्ली।' प्रविष्टियां;
- (vi) मद '6. दिल्ली मंदिर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर' के सामने विद्यमान प्रविष्टि सख्या 2 और 3 के स्थान पर, '2 श्री के० एल० चोपड़ा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दिल्ली तथा भूमि अर्जन कलक्टर, न्यू कोर्टस् दिल्ली; और 3 श्री एम० पी० मरवाह, उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, किंगसवे कैम्प, न्यू कोर्टस्, दिल्ली।' प्रविष्टियां;
- (vii) मद '7. करोल बाग (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर' के सामने विद्यमान प्रविष्टि सख्या 1 और 2 के स्थान पर, '1 श्री सी० डी० शर्मा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दिल्ली तथा उप निदेशक, समाज कल्याण,

7. लांसर्स रोड दिल्ली 7 और 2. श्रीमती ललित्या कुमार, उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, ओरिजिनल रोड, न्यू कोर्स, दिल्ली ।' प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी; तथा

- (viii) मद '1 नई दिल्ली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर' के सामने विद्यमान प्रविष्टि सं० 3 के बाद, '4 श्री आर० के० भाटिया, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दिल्ली तथा महाप्रबन्धक, दिल्ली पर्यटन विकास निगम, कनाट प्लेस, नई दिल्ली ।' प्रविष्टि;
- (ix) मद '2 दक्षिण दिल्ली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर', के सामने विद्यमान प्रविष्टि संख्या 3 के बाद '4. श्री के० एन० बोस, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दिल्ली तथा सहायक विकास आयुक्त, 7. लांसर्स रोड, दिल्ली-7 ।' प्रविष्टि;
- (X) मद '3 बाह्य दिल्ली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर' के सामने विद्यमान प्रविष्टि संख्या 3 के बाद, '4. श्री एल० डी० गुप्ता, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दिल्ली तथा सयुक्त निदेशक, शिक्षा, पुराना सचिवालय दिल्ली ।' प्रविष्टि,
- (xi) मद '4 पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर' के सामने विद्यमान प्रविष्टि संख्या 3 के बाद, '4. श्री एम० सी० जैन, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दिल्ली तथा अवर सचिव, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली प्रशासन भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।' प्रविष्टि; तथा
- (xii) मद '6 दिल्ली सदर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर' के सामने विद्यमान प्रविष्टि संख्या 3 के बाद, '4. श्री के० एन० जोशी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दिल्ली तथा सहायक आयुक्त उत्पाद-शुल्क 2, बैटरी लेन, दिल्ली ।' प्रविष्टि,

जोड़ी जायेगी ।

[सं० 434/दिल्ली/77 (1)]

आदेश से,

प्र० कु० मिश्र, सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित प्रविष्टि (3) में खण्ड (क) में 'टिप्पण 6' शब्द और अंक के स्थान पर 'टिप्पण 5' शब्द और अंक रखे जायेंगे;

(vi) मद 9 में, "और (2) (ग)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर के स्थान पर "(2) और (3) (ग)" कोष्ठक, अंक, शब्द और अक्षर, रखे जायेंगे;

(vii) मद 10 और 11 में;—

(1) "नियम 1 और 2" शब्द और अंक के स्थान पर "नियम 1, 1क और 2" शब्द, अंक और अक्षर रखे जायेंगे ;

(2) "टिप्पण 7" शब्द और अंक के स्थान पर "टिप्पण 6" शब्द और अंक रखे जायेंगे ;

(viii) मद 13 में;—

(1) "टिप्पण 8" शब्द और अंक के स्थान पर 'टिप्पण 7' शब्द और अंक रखे जायेंगे ;

(2) "टिप्पण 9" शब्द और अंक के स्थान पर 'टिप्पण 8' शब्द और अंक रखे जायेंगे ;

(ix) मद 15 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात :—

"15. मानक कटौती की रकम .

(1) जहाँ विवरणी का सम्बन्ध निर्धारण वर्ष 1976-77 या किसी पूर्वतर निर्धारण वर्ष से हो, वहाँ पूजी (मद 14 में यथादर्शित) के 10 प्रतिशत की दर से रकम या 2 00,000 रु० की रकम, जो भी अधिक हो ।

(2) जहाँ विवरणी का सम्बन्ध किसी अन्य निर्धारण वर्ष से हो, वहाँ पूजी (मद 14 में यथादर्शित) के 15 प्रतिशत की दर से रकम या 2,00,000 रु० की रकम, जो भी अधिक हो ।

(यदि पूर्व वर्ष 12 माह की अवधि से लम्बा या छोटा हो तो, यथास्थिति, प्रविष्टि (1) या प्रविष्टि (2) के अनुसार, संगणित रकम अनुपातत बढ़ायी या घटायी जानी चाहिए) ।

(कृपया टिप्पण 9 देखें) ।

(ग) भाग III के नीचे के टिप्पण 5, 6, 7, 8, 9 और 10 क्रमशः टिप्पण 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के रूप में पुनः संख्यांकित किए जायेंगे ,

(घ) इस प्रकार पुनः संख्यांकित टिप्पण 5 में, कोष्ठक और अंक '(2)' के स्थान पर '(3)' कोष्ठक और अंक रखे जायेंगे ;

(ड) इस प्रकार पुनः सख्याकित टिप्पण 6 में,—

- (1) 'नियम 1 और नियम 2' शब्दों और अंको के स्थान पर 'नियम 1, नियम 1क और नियम 2' शब्द, अंक और अक्षर रखे जायेंगे ;
- (2) "नियम 1 और 2" शब्दों और अंको के स्थान पर 'नियम 1, 1क और 2' शब्द, अंक और अक्षर रखे जायेंगे ।

[स० 1659/फा० सं० 143(11)/76-टी० पी०एल ]

एस० एन० शेण्डे, सचिव  
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977